



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1849]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 4, 2017/आषाढ़ 13, 1939

No. 1849]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 4, 2017/ASADHA 13, 1939

I Md ifjogu vkj jktekxl eky;

vf/kl ipuk

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2017

dk-vk- 2079½—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के 18.900 कि.मी. से 19.150 कि.मी. और 21.340 कि.मी. से 94.840 कि.मी. तक के भूखण्ड (बीकानेर से फलोदी सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप-खण्ड अधिकारी, कोलायत, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अनुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

## वृद्धि

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के 18.900 कि.मी. से 19.150 कि.मी. और 21.340 कि.मी. से 94.840 कि.मी. तक (बीकानेर-फलोदी सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

001 0	ftyk dk uke	rkydk dk uke	xte dk uke	l oī @ lykV u0	Hkfe dk i d kj	Hkfe dh i d fr	{ks=Qy %gDVsj e½
1	2	3	4	5	6	7	8
1	chdkuj	dkyk; r	l kykl j	480/156	निजी	बंजड पाला	0.0415
				481/156	निजी	बंजड पाला	
				482/156	निजी	बंजड पाला	
				483/156	निजी	बंजड पाला	
				716/484/156	निजी	बंजड पाला	
				762/160	निजी	औद्योगिक प्रयोजनार्थ	0.0525
				763/160	निजी	बंजड पाला	
				159	सरकारी	बंजड पाला	0.0110
				161	निजी	बंजड पाला	0.2460
				165	निजी	बंजड पाला	0.3335
				18	सरकारी	बंजड पाला	0.1270
				534/39	निजी	औद्योगिक प्रयोजनार्थ	0.0165
				793/124	निजी	बंजड पाला	1.0215
				122	निजी	बंजड पाला	1.4180
				619/198	निजी	बंजड पाला	0.8355
				774/198	निजी	औद्योगिक प्रयोजनार्थ	
				775/198	निजी	बंजड पाला	
				201	निजी	बंजड पाला	0.9455
				519/202	निजी	औद्योगिक प्रयोजनार्थ	0.3285
				520/202	निजी	औद्योगिक प्रयोजनार्थ	
				रास्ता	सरकारी	रास्ता	0.0325
				dy			<b>5.4095</b>
2	chdkuj	dkyk; r	e<+	839	निजी	गैरमुमकिन	0.0900
				33	निजी	बारानी	0.0300
				799	निजी	गैरमुमकिन बंधा	0.0165
				3	सरकारी	गैरमुमकिन	0.0155
				1078/825	निजी	बारानी	0.0051
				dy			<b>0.1571</b>
3	chdkuj	dkyk; r	pdxqkjfl gokyk	7	निजी	गैर मुमकिन मजुरूआ	0.2200
				dy			<b>0.2200</b>
4	chdkuj	dkyk; r	ykm[kk mQZ u; kxkbb	393/19	निजी	बा. बी. पा.	0.1635
				394/19	निजी	बा. बी. पा.	
				110	निजी	चाही बा. बी. पा.	0.6340
				dy			<b>0.7975</b>

5	chdkuj	dkyk; r	pdHkkfV; k clU/k	308/162	निजी	बा.मु.	1.0900
				dy			<b>1.0900</b>
				egk; ksx			<b>7.6741</b>

[फा. सं. 14000/1/2016/3(अ)/Add. LA (बी-पी)]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th July, 2017

**S.O. 2079(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening, Four lane / two lane with paved shoulder etc.), maintenance, management and operation of National Highway No 15 in the stretch of land from Km 18.900 to Km. 19.150 and Km 21.340 to Km 94.840 (Bikaner to Phalodi Section) in the district of Bikaner, in the state of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub-Divisional Officer, Kolayat in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

**SCHEDULE**

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land Km. 18.900 to Km. 19.150 and Km. 21.340 to Km. 94.840 (Bikaner to Phalodi Section) of the NH-15 in the State of Rajasthan.**

Serial number	Name of the district	Name of the taluka	Name of the Village	Survey Number	Type of land	Nature of land	Area (in hectare.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bikaner	Kolayat	Salasar	480/156	Pvt.	Banjad Pala	0.0415
				481/156	Pvt.	Banjad Pala	
				482/156	Pvt.	Banjad Pala	
				483/156	Pvt.	Banjad Pala	
				716/484/156	Pvt.	Banjad Pala	
				762/160	Pvt.	Udogik Paryojnarth	0.0525
				763/160	Pvt.	Banjad Pala	
				159	Govt.	Banjad Pala	0.0110
				161	Pvt.	Banjad Pala	0.2460
				165	Pvt.	Banjad Pala	0.3335
				18	Govt.	Banjad Pala	0.1270
				534/39	Pvt.	Udogik Paryojnarth	0.0165

				793/124	Pvt.	Banjad Pala	1.0215
				122	Pvt.	Banjad Pala	1.4180
				619/198	Pvt.	Banjad Pala	0.8355
				774/198	Pvt.	Udogik Paryojnarth	
				775/198	Pvt.	Banjad Pala	
				201	Pvt.	Banjad Pala	0.9455
				519/202	Pvt.	Udogik Paryojnarth	0.3285
				520/202	Pvt.	Udogik Paryojnarth	
				Rasta	Govt.	Rasta	0.0325
				<b>Total</b>			<b>5.4095</b>
<b>2</b>	<b>Bikaner</b>	<b>Kolayat</b>	<b>Madh</b>	839	Pvt.	Gair Mumkin	0.0900
				33	Pvt.	Barani	0.0300
				799	Pvt.	Gair Mumkin Bandha	0.0165
				3	Govt.	Gair mumkin	0.0155
				1078/825	Pvt.	Barani	0.0051
				<b>Total</b>			<b>0.1571</b>
<b>3</b>	<b>Bikaner</b>	<b>Kolayat</b>	<b>Chak Gujarsingh Wala</b>	7	Pvt.	Gair Mumkin Majruwa	0.2200
				<b>Total</b>			<b>0.2200</b>
<b>4</b>	<b>Bikaner</b>	<b>Kolayat</b>	<b>Ladkhan urf Naya Gaon</b>	393/19	Pvt.	Ba.Bi.pa	0.1635
				394/19	Pvt.	Ba.Bi.pa	
				110	Pvt.	Chai Ba.Bi.pa	0.6340
				<b>Total</b>			<b>0.7975</b>
<b>5</b>	<b>Bikaner</b>	<b>Kolayat</b>	<b>Chak Bhatiya Bandh</b>	308/162	Pvt.	Ba. Mu.	1.0900
				<b>Total</b>			<b>1.0900</b>
				<b>Grand Total</b>			<b>7.6741</b>

[F. No. 14000/1/2016/3(A)/Add. LA (B-P)]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.